



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 343]
No. 343]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 1978/आषाढ़ 23, 1900
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 1978/ASADHA 23, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

प्रधिसूचना

नई दिल्ली 23 जून, 1978

क्र० प्र० 447 (ख) :—उड़ीसा राज्य सरकार ने संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 17 में दिए गए निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में कतिपय प्रादेशिक खण्डों के नाम और सीमाओं में कुछ परिवर्तन संसूचित किए हैं,

और, निर्वाचन आयोग, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 को प्रद्यतन बनाने के लिए उस आदेश की अनुसूची 17 में दिए गए उन निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में संशोधन करना आवश्यक और समीचीन समझता है,

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त आदेश में निम्नलिखित सुधार करता है :-

I. उस अनुसूची के भाग ख में—

- (1) 7-बाड़ीयाड़ा में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, "गोदगन" शब्द के स्थान पर, "गोड़ीगाँव" शब्द रखा जाएगा,
- (2) 35-तिरतोल में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "जगतसिंहपुर उपखण्ड में तिरतोल थाना

(मल्लासाही, पातापुर, कुजंग, गोपियाकुडा, पंकापाल, मंगराज, भागत: और गंडाकीपुर ग्राम पंचायतों को छोड़कर) तथा बालीकुडा थाने की कृष्णावासपुर, मुसुगाँव ताम्बीकुला और बहराना ग्राम पंचायतें।" प्रविष्टि रखी जाएगी,

- (3) 37-बालीकुडा में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "जगतसिंहपुर उपखण्ड में बालीकुडा थाना (कृष्णावासपुर मुसुगाँव, ताम्बीकुला और बहराना ग्राम पंचायतों को छोड़कर)।" प्रविष्टि रखी जाएगी,

- (4) 72-बलपुर में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, "बलपुर नगर" शब्दों के स्थान पर "बलपुर नगर गंजम नगर" शब्द रखे जाएंगे,

- (5) 73-हिल्जिली में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में "बलपुर नगर" शब्दों के स्थान पर, "बलपुर नगर गंजम नगर" शब्द रखे जाएंगे,

- (6) 118-धेनकानल में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "धेनकानल उपखण्ड में धेनकानल थाना (बौलिया, बेल्डीकिरी, कंकाडापाल, तरावा, गोविन्दपुर, गुन्टिया, ताला बड़कोट और भागत: बानासिंह ग्राम पंचायतों और धेनकानल नगरपालिका में अब सम्मिलित इच्छादेईपुर, कोरिना, सिमिलिया, भागवानपुर, श्यामचरनपुर और कथागाड़ा ग्रामों को छोड़कर) तथा मोटांगों थाना।" प्रविष्टि रखी जाएगी।

- (7) 119-गोन्डिया में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "धेनकानल उपखण्ड में गोन्डिया थाना और धेनकानल थाने की बौलिया, बेस्टीकिरी, कंकाड़ापाल तरावा, गोविन्दपुर, गुन्गुटिया, तालाबकोट और भागत: बानासिंह ग्राम पंचायतें और धेनकानल नगरपालिका में प्रद्वै सम्मिलित इच्छादेईपुर कोरिया, सिमिलिया, भागबानपुर, श्यामचरनपुर और कषापाड़ा ग्राम..." प्रविष्टि रखी जाएगी,
- (8) 146-रामचन्द्रपुर में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "बौलार उपखण्ड में हरिचन्द्र हरिचन्द्रपुर और बैतारी थाने, और धानन्दपुर उपखण्ड में सैकुल थाना और धानन्द पुर थाने की सैली, भागत: बलरामपुर, भागत: बेलावहल, भागत: पंचुपल्ली और भागत: मदनपुर ग्राम पंचायतें और धानन्दपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में प्रद्वै सम्मिलित मुराबासी, सैलंग, खपाराखई, जनारा, सालापाड़ा और घासीपुरा ग्राम वर्णन" प्रविष्टि रखी जाएगी, और
- (9) 147-धानन्दपुर (घ० जा०) में निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "धानन्दपुर उपखण्ड में धानन्दपुर थाना (सैली, भागत: बलरामपुर, भागत: बेलावहल, भागत: पंचुपल्ली और भागत: मदनपुर ग्राम पंचायतें और धानन्दपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में प्रद्वै सम्मिलित मुराबासी, सैलंग, खपाराखई, जनारा, सालापाड़ा और घासीपुरा ग्राम और सोसो थाने को छोड़कर)" प्रविष्टि रखी जाएगी,

II. उक्त अनुसूची के अंत में टिप्पण में "1975 के अगस्त के प्रथम दिन" अंक और शब्दों के स्थान पर, "1977 के अगस्त के प्रथम दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे

[सं० 282/1/उड़ीसा/78]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव,

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 1978

S.O. 447(E).—Whereas the Government of Orissa have intimated some alterations in the names and boundaries of certain territorial divisions referred to in the description of the extent of constituencies given in Schedule XVII of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the description of the extent of constituencies in Schedule XVII of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, to bring the order uptodate;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby makes the corrections in the said Order as follows :—

I. In Part B of the Schedule—

- (1) In 35-Tirtol, in the description of the extent of constituency, for the existing entry, the entry "Tirtol Police Station (excluding Mallasahi, Patapur, Kujang, Gopiakuda, Pankapal, Part Mangarajpur

and Gandakipur Grama panchayats) and Krishna-dasapur, Mulugaon, Tandikula and Baharana grama panchayats in Balikuda police station in Jagatsinghpur sub-division." shall be substituted;

- (2) In 37-Balikuda, in the description of the extent of the constituency, for the existing entry, the entry "Balikuda police station (excluding Krishna-dasapur, Mulugaon, Tandikula and Baharana grama panchayats) in Jagatsinghpur sub-division", shall be substituted;
- (3) In 72-Chatrapur, in the description of the extent of the constituency for the words "Chatrapur town" the words "Chatrapur town, Ganjam town", shall be substituted;
- (4) In 73-Hinjili, in the description of the extent of constituency, for the words "Chatrapur town" the words "Chatrapur town, Ganjam town" shall be substituted;
- (5) In 118-Dhenkanal, in the description of the extent of constituency, for the existing entry, the entry "Dhenkanal police station (excluding Chaulia, Beltikiri, Kankadapal, Tarava, Govindpur, Gangutia, Talabarkot and part Banasingh grama panchayats and Ichhadeipur Korian, Similia, Bhagbanpur, Shyamcharanpur and Kathagada villages now included in Dhenkanal municipality) and Motange Police station; in Dhenkanal sub-division", shall be substituted;
- (6) In 119-Gondia, in the description of the extent of constituency, for the existing entry, the entry "Gondia police station and Chaulia, Beltikiri, Kankadapal, Tarava, Govindpur, Gangutia, Talabarkot and part Banasingh grama panchayats, and Ichhadeipur, Korian, Similia, Bhagbanpur, Shyamcharanpur and Kathagada villages, now included in Dhenkanal municipality in Dhenkanal police station in Dhenkanal sub-division", shall be substituted;
- (7) In 146-Ramchandrapur, in the description of the extent of constituency, for the existing entry, the entry "Harichandrapur and Daitari police stations in Keonjhar sub-division" and "Sainkul police station and Bailo, part Balrampur, part Belabahal, part Panchupalli and part Madanpur grama panchayats and Murabali, Sailong, Khaparakhai, Janara, Salapada and Ghasipura villages now included in Anandapur N.A.C. in Anandapur police station in Anandapur sub-division", shall be substituted; and
- (8) In 147-Anandapur (SC), in the description of the extent of constituency, for the existing entry, the entry, "Anandapur police station (excluding Bailo, part Balarampur, part Belabahal, part Panchupapli and part Madanpur grama panchayats and Murabali, Sailong, Khaparakhai, Janara, Salapada and Ghasipura villages now included in Anandapur N.A.C.) and Soso police station in Anandapur sub-division", shall be substituted.

II. In the Note at the end of the Schedule, for the words and figures "1st day of August, 1975", the words and figures "1st day of August, 1977" shall be substituted.

[No. 282/1/QR/78]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.